

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 जून 2024—आषाढ़ 5, शक 1946

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2024

क्र. 1470-2085218-2024-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, 123-अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा विधान सभा उप निर्वाचन 2024 के लिये निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28(क) के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा :—

1. पुलिस उप महानिरीक्षक, छिंदवाड़ा रेंज, मध्यप्रदेश.
2. पुलिस अधीक्षक, जिला छिंदवाड़ा व उनके अधीनस्थ निर्वाचन कार्य में लगे पुलिस अधिकारीगण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एस. मीना, अपर सचिव.